



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

अत्र धरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 232] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 1973/भाद्र 28, 1895

No. 232] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 1973, BHADRA 28, 1895

इस भाग में बिना 265 संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th September 1973

**G.S.R. 446(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Act, 1972 (50 of 1972), the Central Government hereby specifies the following exceptions, restrictions and limitations, subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall apply to the Indian Iron and Steel Company Limited, Calcutta, namely:—

1. Section 81 shall not apply.

2. Section 208 shall apply subject to the modification that in relation to the matters specified in clause (a) of sub-section (1), the company shall not exercise its powers except with the consent of the Central Government and accordingly, for this limited purpose, the opening words of sub-section (1) shall be amended as follows:—

for the words "such public company or subsidiary in general meeting", the words "the Central Government" shall be substituted.

[No. IND. II-10(60)/73(i)]

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 सितम्बर 1973

सा० का० नि० 446 (अ).—इण्डियन आयरन एंड स्टील कंपनी (प्रबंध अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 (1972 का 50) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अपवाद, निर्बन्धन और परि सीमा निम्नलिखित करती है, जिनके अधीन कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता को लागू होगा अर्थात् —

1. धारा 81 लागू नहीं होगी।

2. धारा 293 इस उपान्तरण के अधीन लागू होगी।

कि उपधारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में कम्पनी अपनी शक्तियों का प्रयोग केन्द्रीय सरकार की सम्मति के बिना नहीं करेगी और तदनुसार इस परि सीमित प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के प्रारम्भिक शब्दों का निम्नलिखित रूप से संशोधन किया जाएगा —

“साधारण अधिवेशन में ऐसी पब्लिक कम्पनी या समनुयंगी” शब्दों के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० इंडस्ट्री II-10(60)/73(I)]

**G.S.R. 447(E).**—In exercise of the powers conferred by section 175 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel) No. G.S.R. 494(E), dated the 23rd December, 1972, the Central Government hereby nominates Shri Arabinda Ray, Custodian, Indian Iron and Steel Company Limited, Calcutta, as the Chairman of the annual general meeting of the said Indian Iron and Steel Company Limited to be held on the 27th September, 1973 and any adjourned meeting thereof.

[No. IND.II-10(60)/73]

S. S. SIDHU, Jt. Secy.

सां० कां० निं० 447 (अ).—भारत सरकार, इस्पात और खान मंत्रालय, (इस्पात विभाग) की दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 की अधिसूचना सं० सां० कां० निं० 494(अ) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 175 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के अधिरक्षक श्री अरविन्द रे को उक्त इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के 27 सितम्बर, 1973 को होने वाले वार्षिक साधारण अधिवेशन तथा उसके किसी स्थगित अधिवेशन का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं० इंडस्ट्री II-10 (60)/73]

एस० एस० सिद्धू, संयुक्त सचिव।